



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 25-दिसम्बर 31, 2004 (पौष 4, 1926)  
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY DEC. 25-DEC. 31, 2004 (PAUSA 4, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग 1-खण्ड 2 [PART I-SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफिसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 1 दिसम्बर 2004

सं० ए०-22017/8/2004-प्रशा०-1-राष्ट्रपति के  
केन्द्रीय सचिवालय आधुनिक सेवा संचयन के निजी सचिव  
तथा श्री एम० के० नारायणन, प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार  
के निजी स्टाफ में निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्री एन०  
वैद्यगिरि ने 1 दिसम्बर 2004 के पूर्वानुक्रम से प्रधानमंत्री के  
विशेष सलाहकार के निजी स्टाफ में अपने पद का कार्यभार  
छोड़ दिया है।

पी० के० राय, अवर सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर 2004

सं० ए-19013/04/2004-प्रशा०-1-राष्ट्रपति, श्री  
एल० आर० साहूदापुरी को 4 नवम्बर 2004 के पूर्वानुक्रम से

1-382 GI/2004

(1305)

उनकी अधिवृत्ति की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों  
तक, जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल सचिवालय में उप सचिव  
(के०स०से०) के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० एस० यादव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 2004

सं० ए-19011/04/2004-प्रशा०-1-श्री पी० आई०  
सुब्रतन, भा० प्र० से० (हि० प्र० 72), के प्रशासनिक सुधार  
और लोक शिकाया विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्ति  
के परिणामस्वरूप उन्होंने 9 दिसम्बर, 2004 के आदेश से  
मंत्रिमंडल सचिवालय में अवर सचिव का पदभार छोड़ दिया।

ए० मोहनन, अवर सचिव

## अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560 094, दिनांक 3 दिसम्बर 2004

सं० 14/7/1/97-I—श्री एस० के० दास, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कर्नाटक : 70) ने आने कार्यकाल समाप्ति के परिणामस्वरूप दिनांक 2 दिसम्बर, 2004 के अपराह्न से अन्तरिक्ष विभाग में आर सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

डा० ई० बी० रमणा रेड्डी, निदेशक

दिनांक 9 दिसम्बर 2004

सं० 2/1/6/2004-I—राष्ट्रपति श्री एस० के० दास, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कर्नाटक : 70) के सदस्य को भारत सरकार के वित्तीय सलाहकार तथा पदेन अपर सचिव के साथ-साथ अन्तरिक्ष आयोग तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य के रूप में 9-12-2004 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

डा० ई० बी० रमणा रेड्डी, निदेशक

बेंगलूर-560094, दिनांक 6 दिसम्बर 2004

सं० 7/1(1)/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, बलियनला, तिरुवनन्तपुरम में श्री आर० बी० पेरुमाल को निदेशक के पद पर दिनांक 29-10-2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

## योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2004

सं० ए-12013/01/2004-प्रशा०-II—राष्ट्रपति, श्री भानु मेहरोत्रा (आईओएस : 1996) उपनिदेशक, नालन्दा सेवा, अग्र्य फंक्शनरी बोर्ड, कोलकाता को पूर्णतः तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर 10,000-325 15,200/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 29-10-2004 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले अदशों तक, जो भी पहले हो, योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

के० के० छावड़ा, अवर सचिव

## विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 29 नवम्बर 2004

सं० के०-13023/7/2004-यू० एस० II—इस विभाग की दिनांक 25 नवम्बर, 2004 की समसंख्यक अधिसूचना में आशिक्ष संशोधन करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के

न्यायाधीश, न्यायविद् श्री सरस्वती प्रसाद खरे के त्याग-पत्र की तारीख को "25 अक्टूबर, 2004 अपराह्न" के स्थान पर "25 अक्टूबर, 2004 पूर्वाह्न" पढ़ा जाए।

डा० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 1 दिसम्बर 2004

सं० के०-13012/3/2003-यू०एस०-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री शैलेन्द्र सक्सेना और (ii) श्री ओंकार नाथ खण्डेलवाल को उसी श्रृंखला क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डा० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 7 दिसम्बर 2004

सं० के०-13025/7/2004-यू० एस०-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायविद् श्री मदन मोहन दास को, उस तारीख से, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डा० के० पी० सेठ, संयुक्त सचिव

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

सं० 1-18011/3/2004-आई०पी०एस०-IV—राष्ट्रपति, पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर-त्रिपुरा और महाराष्ट्र संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से, भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तारीख
	(सर्व श्री)	
1.	के० बी० श्रीजेश, आई०पी०एस० (एमटी : 2000)	04-09-2002
2.	के० एम० मल्लिकार्जुन प्रसन्ना, आई०पी०एस० (एमएच : 2000)	04-09-2002

जे० बी० कौशिक, डेस्क अधिकारी

कार्मिक, लोक शिक्षा तथा पेंशन मंत्रालय  
(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 दिसम्बर 2004

सं० ए-19011/2/2003-प्र.सु० (प्रशा०-I) —  
राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हि० प्र०: 1972) के  
अधिकारी श्री पी० आई० सुब्रतन को 10 दिसम्बर, 2004  
के पूर्वाह्न से आगे आदेश जारी होने तक, कार्मिक लोक  
शिक्षा तथा पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक  
शिकायत विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्य नियुक्त  
करते हैं।

पी० टी० मुटिया, अपर सचिव

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2004

सं० 13017/44/2004-अ.भा०से०-(1) — भारतीय  
प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6(1)  
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार,  
हरिद्वार सरकार तथा ए०जी०एम०यू०टी० संघ के निरंतरक  
प्राधिकारी के रूप में गृह मंत्रालय की सहमति से श्री विमल  
मोहन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (अ.र.आर०: 77) को  
चंडीगढ़ प्रशासनिक सेवा तथा गृह विभाग पर नियुक्ति के  
लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के इच्छित संवर्ग से भारतीय  
प्रशासनिक सेवा के ए०जी०एम०यू०टी० संघों ने दोनों को  
अन्तर संवर्ग प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन करता है।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

सं० 13017/48/2003 अ.भा०से०-(1) — केन्द्रीय सरकार  
भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम वक्तो, 1954 के नियम  
5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  
तथा पश्चिम बंगाल तथा ए०जी०एम०यू०टी० (अगमूट) संवर्ग  
के निरंतरक प्राधिकारी के रूप में गृह मंत्रालय की सहमति से,  
श्री अमित सिंगला, भारतीय प्रशासनिक सेवा (अ.र.आर०:  
2003) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग  
से भारतीय प्रशासनिक सेवा के ए०जी०एम०यू०टी० (अगमूट)  
संवर्ग में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करता है।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

दिनांक 06 दिसम्बर, 2004

सं० 13017/12/2004-अ.भा०से० (I) — केन्द्रीय  
सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम वक्तो,  
1954 के नियम 5 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों  
का प्रयोग करते हुए मणिपुर-त्रिपुरा तथा छत्तीसगढ़ राज्य  
सरकारों की सहमति से श्रीमती रितु सैन, भारतीय प्रशासनिक

सेवा (आर० आर०: 2003) को भारतीय प्रशासनिक सेवा  
के मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित  
करते हैं।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

दिनांक 10 दिसम्बर 2004

सं० 13017/39/2003-अ. भा. से. (I) — केन्द्रीय  
सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम वक्तो, 1954  
के नियम 5 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का  
प्रयोग करते हुए तथा उड़ीसा तथा कर्नाटक राज्य सरकारों की  
सहमति से श्री मुनीश मुनीश, भारतीय प्रशासनिक सेवा  
(अ.र.आर०: 98) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के उड़ीसा  
संवर्ग से कर्नाटक संवर्ग में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते  
हैं।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली दिनांक 9 दिसम्बर 2004

सं० ए० 32013/2/2004-प्रशा०-I — राष्ट्रपति, केन्द्रीय  
सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, दिनांक 18  
अक्टूबर, 2004 के आदेशों, आगे आदेशों, पेशनाया  
पेंशनभोगी कल्याण विभाग में, अपर सचिवों के रूप में नियुक्त  
करते हैं: —

1. श्री बी० के० वघवा
2. श्री टी० आर० शर्मा

बी० के० वेलुकुट्टी, अपर सचिव

सं० ए-32013/2/2004-प्रशा०-I — राष्ट्रपति, केन्द्रीय  
सचिवालय सेवा, संवर्ग के श्री के० के० मिश्र नाम को दिनांक  
14 अक्टूबर, 2004 के पूर्वाह्न से आगे आदेशों का कार्मिक  
तथा प्रशिक्षण विभाग में, अपर सचिव के रूप में नियुक्त  
करते हैं।

बी० के० वेलुकुट्टी अपर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर, 2004

सं० 102(फा० सं० ए-19012/15/2004-प्रशा०-1) —  
भारत के राष्ट्रपति, श्री अमर कुमार शिवराव (सं० शु०  
एवं के० उ० शु० 92) को दिनांक 18-11-2004 (पूर्वाह्न)  
से चार वर्षों का अवधि के लिए अथवा आगे आदेशों तक,  
जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में उप-सचिव के रूप में  
नियुक्त करते हैं।

प्रतीति पंत अपर सचिव

दिनांक 24 नवम्बर, 2004

सं० 104 (फा० सं० ए 19011/15/2004-प्रशा०-1)  
—राष्ट्रपति, श्री अमित चटर्जी, भारतीय राजस्व सेवा: 69  
का दिनांक 10-11-2004 (अपराह्न) से और अगले आदेशों  
तक वित्त मंत्री के सलाहकार के विशेष कार्य अधिकारी के रूप  
में नियुक्त करते हैं।

प्रीति पंत, अवर सचिव

दिनांक 30 नवम्बर, 2004

सं० 105 (फा० सं० ए 19013/27/2004-प्रशा०-1)—  
राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा के श्री दीपक  
कुमार को दिनांक 25-11-2004 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों  
की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक राजस्व विभाग,  
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त  
करते हैं। उनको अवर सचिव (सेवा परीक्षा एवं लोक सेवा  
परीक्षा समिति-1) के रूप में तैनात किया जाता है।

प्रीति पंत, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर, 2004

भारतीय सीमा शुल्क एवं के० उ० शु० स्थापनाएं

फा० सं० ए-38012/26/2004-प्रशा०-II—राष्ट्रपति,  
श्री देशरज सिंह, उप निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय,  
भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)  
की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, सी० सी० एस० (पेंशन) नियमा-  
वली के नियम 48 क के तहत दिनांक 12-12-2004 से तत्काल  
प्रभाव से स्वीकार करते हैं।

के० किपगेन, अवर सचिव

दिनांक 06 अक्टूबर, 2004

सं० 26/2004 फा० सं० ए 12025/05/2002-प्रशा०-II—  
विभाग की अधिसूचना सं० 6 (फा० सं० 12025/05/2002-  
प्रशा०-II दिनांक 14-5-2003) का अधिकरण करते हुए,  
राष्ट्रपति सिविल सेवा परीक्षा 2001 में सफल निम्न उम्मीद-  
वारों को उनके नाम के सामने लिखी गई तारीखों से तथा  
अगले आदेशों तक भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय  
उत्पाद शुल्क सेवा, समूह "क" में परिवीक्षाधियों के रूप में  
सहर्ष नियुक्त करते हैं।

क्र० सं० परिवीक्षाधियों के नाम प्रभार संभालने की तारीख

1	2	3
	श्री/श्रीमती	
1.	अदेल्ली प्रसाद	02-09-2002 (पूर्वाह्न)
2.	सुश्री बी० जबाब लामुन्दरी	-वही-
3.	सुश्री फराह इकबाल	-वही-

1 2 3

4.	कलाकान्त सिंह	05-09-2002 (पूर्वाह्न)
5.	सुश्री संजुला होधरावी	02-09-2002 (पूर्वाह्न)
6.	निखिल प्रभाकर मेहराम	-वही-
7.	मोहन कुमार मीणा	-वही-
8.	नवराज गोयल	-वही-
9.	प्रभजीत सिंह गुलाटी	-वही-
10.	शेलाके नीलकंठ निवहत्ती	-वही-
11.	बेंकटेश टी० जी०	-वही-
12.	विजय कुमार सिंह	06-09-2002 (पूर्वाह्न)
13.	सुश्री पूजा कुलकर्णी	26-12-2002 (पूर्वाह्न)
14.	प्रशांत कुमार	-वही-
15.	संजय गोयल	-वही-
16.	सुश्री दीप्ति जगन्नाथ	-वही-
17.	विकास कुमार	-वही-
18.	अमिता कुमार गुप्ता	-वही-
19.	सुश्री रिदु सेन	-वही-
20.	बाबु ए०	-वही-
21.	यशोवर्धन पाठक	15-01-2003 (पूर्वाह्न)
22.	पी० स्वरूप	27-01-2003 (पूर्वाह्न)

के० किपगेन, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर, 2004

सं० 2/6/2001-एडीवी—डॉ० राकेश मोहन, सचिव,  
आर्थिक कार्य, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को श्री डी० सी०  
गुप्ता के स्थान पर 1 नवम्बर, 2004 (पूर्वाह्न) से एशियाई  
विकास बैंक, मनीला के बोर्ड ऑफ़ प्रान्स में भारत के वित्तीय  
गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है।

शमिला चावलि, निदेशक (एडीवी)

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर, 2004

एफ० सं० 2/5/2003-सिक्का-I—राष्ट्रपति, श्री एस०  
के० चट्टोप ध्याय, अभियंत (मिटर (चयन ग्रेड), भारत सरकार  
टकसाल, को नियमित आधार पर पदार्गत होने पर 8,000-275  
13,500-रु० के वेतनमान में दिनांक 26-10-2004 (पूर्वाह्न)  
से अगली आदेशों तक, सहायक कार्य प्रबंधक, भारत सरकार  
टकसाल के पद पर नियुक्त करते हैं।

अवर सचिव, वित्त विभाग, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 2004

सं०-ए० 12011/7/2001-प्रशा० 1 ए-राष्ट्राति, श्री एच० ए० सी० प्रकाश को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में, 22400-525-24500- के वेतन-तल में, दिनांक 07 दिसम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक वरिष्ठ आर्थिक सहायक नियुक्त करते हैं।

एस० सौन्दर राजन, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(आर्थिक विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

सं० 6/1803/76/एचआरडी-1/4303—अर्धवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर जोनल संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार कार्यालय, चेन्नई के सहायक महानिदेशक, विदेश व्यापार श्री एन० चन्द्रशेखर 30-11-2004 (अप्रत्याह) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

के० चन्द्रामती, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 08 नवम्बर 2004

सं० ए 45011/02/2004-व्य० 1-राष्ट्राति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड 1 अधिकारी श्री पूरन चन्द को, जो इस समय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसी विभाग में तदर्थ आधार पर 20 अगस्त, 2004 को पूर्वाह्न से उप-सचिव, (केन्द्रीय सचिवालय सेवा का चयन ग्रेड) के रूप में नियुक्त करते हैं।

उप सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड) के ग्रेड में उच्च अधिकारी की तदर्थ पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और इससे उच्च अधिकारी को उस ग्रेड में अनिवार्य रूप से रहने अथवा निर्मित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस तदर्थ पदोन्नति पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से सं० 21/13/2004-सी०एस० 1, दिनांक 20 अगस्त, 2004 में निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

ज० पी० श्री, अवर सचिव

दिनांक 25 नवम्बर 2004

सं० ए-12022/02/2004-प्र-1-राष्ट्राति, श्री चंचल कुमार, आई० ए० एस० (आई० टी० 92) को वणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में 25 नवम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उप-सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

ज० ज० कौट, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 2004

सं० 22/2004 (ए-19011/9/2004-स्था०)---पंचायती राज मंत्रालय में सचिव, के रूप में श्री वज्रहृत हबीबुल्लाह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (जे० के० : 68) की नियुक्ति के फलस्वरूप उन्होंने 8 दिसम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से वस्त्र मंत्रालय में सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर० सुब्रह्मण्यम, निदेशक

सं० 23/2004 (ए-19011/16/2004-स्था०)---राष्ट्राति, श्री आर० पूर्णलिंगम भारतीय प्रशासनिक सेवा (तमिलनाडू 70) को 8 दिसम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से वस्त्र मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० सुब्रह्मण्यम, निदेशक

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और प्रदूषण रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2004

सं० ए-19011/5/2004-स्था०---राष्ट्राति, श्री परेश जोहरी, आई० आर० एस० (आई० टी० 95) को रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में 29 नवम्बर, 2004 अह्न से चार वर्षों के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, उपसचिव नियुक्त करते हैं।

आर० पी० वशिष्ठ, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 नवम्बर 2004

संख्या ए-12025/1/2006-एन०टी०एच० (वोल्यूम II)---

राष्ट्राति, श्री आर० एन० मुखर्जी, वैज्ञानिक (एस० डी०) को 27-1-004 के पूर्वाह्न से राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र) गाजियाबाद में 14300-400-18300 रुपये के वेतनमान में निदेशक (ग्रेड II) के पद पर नियुक्त करते हैं।

हरजिंदर सिंह मल्ही, अवर सचिव

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 3 दिसम्बर 2004

सं० ए-19014/04/2004-प्रशा०-1—रष्ट्राति, कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 नवम्बर 2004 के आदेश सं० 27 द्वारा श्री संजीव बहल, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I (अवर सचिव), तदर्थ अधिकारी हैं, का ऊर्जा मंत्रालय से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में स्थानांतरण होने के फलस्वरूप उन्हें 8 नवम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के कर्मचारी-वृद्ध में सम्मिलित करते हैं।

गुरमीत सिंह, अवर सचिव

## पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 02 दिसम्बर 2004

सं० ए-32012/2/2001-पी-II (. )—कामिक और प्रशिक्षण विभाग के का० जा० सं० 5/5/2004-सी०एस०-II, दिनांक 21-9-2004 के तहत सञ्चालित अधिकारों के अनुमोदन से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय अशु-लिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'सी' श्री राम मेहर सिंह थलौर की 6500-200-10,500 रु० के वेतनमान में निजी सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति को 1-4-2004 से 30-9-2004 तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, अंगे बढ़ाया जाता है।

2. इस तदर्थ नियुक्ति के परिणामस्वरूप उक्त अधिकारी को नियमित प्रोन्नति हेतु कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। किसी भी समय इस तदर्थ नियुक्ति को रद्द करने और जिस पद से अधिकारी की प्रोन्नति हुई है, उसी पद पर उसे प्रत्यावर्तित करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

## राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 02 दिसम्बर 2004

सं० ए-12015/1/2004-रा०न०सं०नि०-I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के श्री अजय राघव, वरिष्ठ पर्यावरणीय अभियन्ता को राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 01 दिसम्बर, 2004 पूर्वाह्न से 10,000-325-15,200 रु० के वेतनमान में वैज्ञानिक 'थ' के रूप में तदर्थ आधार पर तीन वर्ष की अवधि अथवा परियोजना के जारी होने तक अथवा अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

ए० के० सिन्हा, अवर सचिव

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 01 दिसम्बर 2004

सं० ए-38012/1/2004-स्थापन-I—अतिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर, स्वास्थ्य विभाग, स्वस्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपसचिव (तदर्थ) श्री वाई० के० तलवार दिनांक 30 नवम्बर, 2004 (अमराह्ण) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए।

डा० अनिल कुमार, उप सचिव

सं० ए-38012/03/2004-स्थापन-I—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पश्चिम बंगाल : 67) के अधिकारी, श्री जे० बी० आर० प्रसादा राव ने अतिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर, दिनांक 30 नवम्बर, 2004 के अमराह्ण से स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव (स्वास्थ्य) के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

डा० अनिल कुमार, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्टूबर 2004

सं० ए-22012/1/2004-स्थापन-I—कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6-10-2004 के आदेश सं० 5/4/2004-ई०ओ० (एस० एम०-1) के साथ पठा दिनांक 10-9-2004 के आदेश सं० 5/4/2004-ई०ओ० (एस० एम०-1) के अनुसरण में, श्री एस० वाई० कुरेशी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हरियाणा : 71) ने इसात मंत्रालय से स्थानांतरित होकर दिनांक 13 सितम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से स्वास्थ्य विभाग/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अवर सचिव एवं परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय एड्स संगठन के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

चन्द्र प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 14 अक्टूबर 2004

सं० ए-32013/10/2004-स्थापन-I—कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 सितम्बर 2004 के का० जा० सं० 21/40/2004-सी०एस०-I के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-I में तदर्थ आधार पर पदोन्नति किए जाने और इस मंत्रालय में स्थानांतरित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी क्रमशः श्री ए० के० देवरी और श्री अरविंद कुमार को प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :—

1. श्री ए० के० देवरी 20-9-2004 (अमराह्ण)
2. श्री अरविंद कुमार 23-9-2004 (पूर्वाह्न)

2. यह तदर्थ प्रोन्नति ग्रेड में अनिवार्य काल तक बने रहने, अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल करने अथवा ग्रेड-I में दरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। ये तदर्थ नियुक्तियां बिन कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।

चन्द्र प्रकाश, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्टूबर 2004

सं० ए-19012/8/2002-ई० ए०-—राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के गैर-क्रियात्मक चयन ग्रेड अधिकारी, डॉ० के० पोन्नूकानू को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 20 अक्टूबर, 2004 की अपराह्न से 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में अवर अधिक सहायकार के पद से कार्यभार करते हैं।

राजकुमार, अवर सचिव

सं० ए-19012/8/2002 ई० ए०-—राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के अध्यक्ष, डॉ० के० पोन्नूकानू को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी० ए० सी० पी०), कृषि एवं सहकारिता विभाग में 21 अक्टूबर, 2004 को पूर्वाह्न से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर 18,400-22,400/- रुपये के वेतनमान में सदस्य (सरकारी) के पद पर नियुक्ति करते हैं।

राजकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर 2004

सं० 12022/4/2004-स्था०-1—राष्ट्रपति, वर्तमान में कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में माननीय कृषि राज्य मंत्री (श्री कान्ति लाल भूरिय) के निजी स्टाफ में सहायक निजी सचिव के रूप में कार्यरत श्री प्रवीण कुमार कक्कड़ को 9-10-2004 के पूर्वाह्न से कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में 10000-325-15200/- रु० के वेतनमान में विशेष कार्याधिकारी (ओ० एस० डी०) नियुक्त करते हैं।

2. ओ एस डी के पद पर श्री कक्कड़ की यह नियुक्ति कृषि राज्य मंत्री के सहआवमानिक या उनको इच्छा पर निर्भर करेगी।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 10 नवम्बर 2004

सं० 4-2/2004-मशीनरी (प्रशासन) — कृषि और सहकारिता विभाग के सहायक प्राधिकारी, श्री पी० पूनचन्द्रा राव,

तकनीकी सहायक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, अनंतपुर को पदोन्नति आधार पर सहायक इंजीनियर (परीक्षण) के पद पर केन्द्रिय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण व परीक्षण संस्थान, बुदनी (म०प्र०) में, दिनांक 4-10-2004 (पूर्वाह्न) से, रु० 6500-200-10500 के वेतनमान में नियुक्ति करते हैं।

एच० सी० बारा, अवर सचिव

दिनांक 9 दिसम्बर, 2004

सं० 12023/2/2003-स्था० 5 (खण्ड II) — राष्ट्रपति, डा० तुलसी राम, सहायक प्रोफेसर एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, कश्मीर की 18-11-2004 (आराह्न) से 3 वर्ष की अवधि के लिए या प्रागम्य अवधि होने तक दोनों में से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर कृषि एवं सहकारिता विभाग में 10,000-325-15,200/- रु० के वेतनमान में सहायक आयुक्त (कस्त) के पद पर नियुक्ति करते हैं।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

(पशुपालन और डेपरी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर, 2004

सं० ए-19011/15/2004-स्था०-I—राष्ट्रपति डा० एस० के० बंदोपाध्याय संयुक्त निदेश (पैमिड), आई० बी० आर० आई०, इज्जतगढ़ को 22,400-525-24-300/- रुपये के वेतनमान में रुतना के तृतीय-तृतीय सामान्य भत्ते सहित प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 8 दिसम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से 5 वर्षों की अवधि के लिए पशुपालन एवं डेपरी विभाग में पशुपालन आयुक्त के पद पर नियुक्ति करते हैं।

पी० एल० मीना, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2004

शुद्धि पत्र

सं० ए-15011/9/2004-स्था०-1—इस विभाग के दिनांक 5-11-2004 को सहायक अधिकारी में श्रीगोरोषा मणि, उप सचिव (तथ्य) (केन्द्रिय सचिवालय सेवा) की सेवा नियुक्ति की तिथि जिसे "5 नवम्बर 2004 के आराह्न" के रूप में दर्शाया गया है को "5 दिसम्बर, 2004 के पूर्वाह्न" के रूप में पढ़ा जाए।

पी० एल० मीना, अवर सचिव

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 2004

सं० 4-6/2003-स्था०-—राष्ट्रपति (प्रशासन), वित्त मंत्रालय के दिनांक 17 दिसम्बर, 2004 के आराह्न 14013/1/2003-आई० ई० एस० में निहित निर्देशों और कृषि एवं

सहकारिता विभाग की उनके कार्यालय आदेश सं. ए-12018/4/2002-ई.ए. दिनांक 25 नवम्बर, 2004 के अनुसार वर्तमान अनुमोदन के अनुपालन में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में अनुसंधान अन्वेषक ग्रेड-I (अधिक) (भारतीय आर्थिक सेवा के फोडर पद) के पदों को 6500-200-10500 रु. के वेतनमान में 25 नवम्बर, 2004 से आर्थिक अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में पुनः पदनामित किया गया है। तदनुसार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के निम्नलिखित अनुसंधान अन्वेषकों ग्रेड-I (अधिक) के वर्तमान पदनाम को 25 नवम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से आर्थिक अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में परिवर्तित किया गया है :-

1. श्री रमेश सिंह
2. डा० भगवान दास
3. श्री पी०डी०मोयल
4. श्री आनन्द सिंह परमार
5. श्रीमती उमा शर्मा

राजीव मेहता, सदस्य सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 02 दिसम्बर 2004

सं० 3-8/2003 प्रशा०-I—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 19-11-2004 के आदेश सं० 4/3/2004-ई०ओ० (एस०एम०-I) के अनुपालनार्थ श्री के० पी० सिंह भा०प्र०से० (म० प्र० : 85) को 1-12-2004 के पूर्वाह्न से उनकी केन्द्रीय कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 25-9-2006 तक अथवा आगामी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग में 15,100-400-18,300 रु० के वेतनमान में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० एस० शर्मा, अवर सचिव

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर 2004

सं० ए०-35021/3/2004-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, सुश्री लीना नंदन, आई.एस. (यू०पी० : 87) को 16-11-2004 (पूर्वाह्न) से पाँच वर्ष की अवधि या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए 15,100-400-18,300 रु० के वेतनमान में पर्यटन मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय  
(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 दिसम्बर 2004

सं० ए-38012/4/2004-स्था०—पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पोत परिवहन विभाग से

श्री सुकार सिंह नेगी, अनुभाग अधिकारी अधिवृत्ति की आयु में पहुँचने के कारण भारतीय सेवा से दिनांक 30-11-2004 (अंतराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 2004

सं० आर० डब्ल्यू/ए० पी० (सी०ई०)/55 (खंड-IV)—राष्ट्रपति, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, में केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) वर्ग 'क' के अधिकारी श्री बी० वेत्तयूथम, मुख्य अभियंता को अपर महा-निदेशक के पद पर रु० 22,400-525-24,500/- के वेतनमान में दिनांक 25-11-2004 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर 26-01-2005 तक या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, तक को अवधि के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री बी० वेत्तयूथम को आर महा-निदेशक के उक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति मातहत दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सी० डब्ल्यू० पो० सं० 1863/2003 के अंतर्गत सी० एम० नं० 4698/2004 में दिनांक 26-05-2004 को दिए गए आदेश के अनुसंधान में की जा रही है।

ए० पी० मोदी, अवर सचिव

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 नवम्बर 2004

सं० 3/1/2003-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, निम्नलिखित वैज्ञानिक 'से' को सुपरी प्रमुख शोधक के अंतर्गत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में 12,000-375-16,500 रु० के वेतनमान में वैज्ञानिक 'डो' के पद पर व्यवस्थापक प्रभार पर दिनांक 22 नवम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से अपने आदेशों तक स्वस्थाने पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री जी० उपाध्याय
- (2) श्री बी० के० पंडा

जे० मजूमदार, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 09 दिसम्बर 2004

सं० ए-19011/6/2004-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिव लय सेवा के श्री एच० सी० गौड़ को श्रम और रोजगार मंत्रालय में 15 नवम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से अपने आदेशों तक उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी० एम० शर्मा, अवर सचिव



## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 01st December 2004

No. A.22017/6/2004-PMA—Shri N. Vedagiri, a Private Secretary of CSSS Cadre of Ministry of Home Affairs and appointed as Private Secretary on the personal staff Shri M.K. Narayanan, Special Advisor to Prime Minister has relinquished charge of the post on the personal staff of Special Adviser to PM with effect from the forenoon of December 1, 2004.

P.K. ROY, Under Secy.

## CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 6th December 2004

No. A-19013/04/2004-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri L.R. Shahdarpuri as Deputy Secretary (CSS) in the Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 4th November, 2004 till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

R.S. YADAV, Under Secy.

New Delhi, the 13th December 2004

No. A-19011/04/2004-Ad.I—Consequent upon his appointment as Additional Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances Shri P.I. Suvrathan, IAS (HP:72), Additional Secretary has relinquished the charge of the post of Additional Secretary in the Cabinet Secretariat with effect from the afternoon of 9th December, 2004.

A. MOHANAN, Under Secy.

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 3rd December 2004

No. 14/7/1/97-I—Consequent on the expiry of his tenure, Shri S.K. Das, IAS (KN:70) has relinquished the charge of the post of Additional Secretary in the Department of Space with effect from the afternoon of December 2, 2004.

Dr. E.V. RAMANA REDDY, Director

The 9th December 2004

No. 2/1/6/2004-I—The President is pleased to appoint Shri S.K. Das, a Member of Indian Administrative Service (KN:70), as Financial Adviser and Ex-Officio Additional Secretary to the Government of India and concurrently Member, Space Commission and Atomic Energy Commission with effect from the forenoon of 09.12.2004.

Dr. E.V. RAMANA REDDY, Director

Bangalore-560094, the 6th December 2004

No. 7/1/1/2004-I—The President is pleased to appoint Shri R.V. Perumal as Director in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the forenoon of 29.10.2004 and until further orders.

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 29th October 2004

No. A. 12013/01/2004-Adm.II—The President is pleased to appoint Shri Bhanu Mehrotra, [IOFS:1996], Deputy Director, Nalanda Cell, Ordnance Factory Board, Kolkata, as Senior Research Officer in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200, on purely ad-hoc deputation basis for a period of one year with effect from 29.10.2004 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

## (DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 29th November 2004

No. K. 13023/7/2004-US.II—In partial modification of this Department's Notification of even number dated 25th November, 2004, the date of resignation of Shri Justice S.P. Khare, Judge, Madhya Pradesh High Court may be read as "Forenoon of 25th October, 2004" instead of "Afternoon of 25th October, 2004".

Dr. P.K. SETH, Jt. Secy.

The 1st December 2004

No. K. 13012/3/2003-US.II—In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint : (i) Shri Shailendra Saksena and (ii) Shri Onkar Nath Khandelwal, to be Additional Judges of the Allahabad High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective office.

Dr. P.K. SETH, Jt. Secy.

The 7th December 2004

No. K. 13025/7/2004-US.II—In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Madan Mohan Das, Additional Judge of the Orissa High

- Court, to be a Judge of the Orissa High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

Dr. P.K. SETH, Jt Secy.

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 14th December, 2004

No. I-18011/3/2004-IPS.IV—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadres of Manipur-Tripura and Maharashtra with effect from the dates mentioned against their names :—

S. No.	Name of the Officer	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	K.V. Sreejesh IPS (MT:2000)	04.09.2002
2.	K.M. Mallikarjuna Prasanna IPS (MH:2000)	04.09.2002

J.B. KAUSHISH, Desk Officer

### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

#### (DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES)

New Delhi, the 10th December 2004

No. A-19011/2/2003-AR(Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri P.I. Suvrathan, IAS (HP:1972) as Additional Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions with effect from the forenoon of 10th December 2004 until further orders.

P.T. BHUTIA, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 2nd December 2004

No. 13017/44/2004-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Haryana and Ministry of Home Affairs as the cadre controlling authority for the AGMUT, the Central Govt. hereby accords approval for deputation of Shri Krishna Mohan, IAS (HY:RR:77) from IAS Cadre of Haryana to the IAS Cadre of AGMUT for a period of two years for appointment as Secretary (Home) under the Chandigarh Administration.

K.K. SHARMA, Desk Officer

No. 13017/48/2003-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of West Bengal and the Ministry of Home Affairs as a cadre controlling authority of AGMUT, the Central Government hereby transfers Shri Amit Singla, IAS (RR:2003) from IAS Cadre of West Bengal to the IAS Cadre of AGMUT with immediate effect.

K.K. SHARMA, Desk Officer.

The 6th December 2004

No. 13017/12/2004-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Manipur-Tripura and Chhattisgarh, the Central Government hereby transfers Smt. Ritu Sain, IAS (RR:2003) from IAS Cadre of Manipur-Tripura to the IAS Cadre of Chhattisgarh with immediate effect.

K.K. SHARMA, Desk Officer

The 10th December 2004

No. 13017/39/2003-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Orissa and Karnataka, the Central Government hereby transfers Shri Munish Moudgil, IAS (RR:1998) from IAS Cadre of Orissa to the IAS Cadre of Karnataka with immediate effect.

K.K. SHARMA, Desk Officer

New Delhi, the 9th December 2004

No. A. 32013/2/-2004-Ad. I.—The President is pleased to appoint the following officers of Central Secretariat Service as Under Secretaries in Department of Pensions & Pensioners Welfare with effect from the afternoon of 18th October, 2004, until further orders :—

S.No.	Name of the Officer
1.	Shri V.K. Wadhwa
2.	Shri T.R. Sharma

V.K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A. 32013/2/-2004-Ad. I.—The President is pleased to appoint Shri K.K. Miglani, CSS, as Under Secretary in Department of Personnel and Training with effect from the forenoon of 14th October, 2004 until further orders.

V.K. VELUKUTTY, Under Secy.

**MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)**

New Delhi, the 19th November 2004

No. 102: (F.No. A-19012/15/2004-Ad.I).—The President is pleased to appoint Shri Abhai Kumar Srivastava (C&CE:92) as Dy. Secretary in the Department of Revenue for a period of four years with effect from 18.11.2004(FN) or until further orders, whichever is earlier.

PREETI PANT, Under Secy.

The 24th November 2004

No. 104: (F.No. A-19011/15/2004-Ad.I).—The President is pleased to appoint Shri Amit Chatterjee, IRS:79, as Officer on Special Duty to Adviser to the Finance Minister with effect from 10.11.2004 (AN) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

The 30th November 2004

No. 105: (F.No. A-19013/27/2004-Ad.I).—The President is pleased to appoint Shri Deepak Kumar, IRS as Under Secretary in the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 25.11.2004 (FN) and until further orders. He is posted as Under Secretary (A&PAC.I).

PREETI PANT, Under Secy.

New Delhi, the 11th November 2004

**INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE  
ESTABLISHMENTS**

No. 27 of 2004 (F.No. A-38012/26/2004-AD.II).—The President is pleased to accept the notice for Voluntary retirement of Shri Dev Raj Singh, Deputy Director, Directorate of Revenue Intelligence, New Delhi from Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) w.e.f. 12.12.2004 under Rule 48-A of CCS (Pension) Rules.

K. KIPGEN, Under Secy.

No. 26/2004 (F.No. A 12025/05/2002 Ad.II).—In supersession of this Department's Notification No. 6 (F. No. 12025/05/2002-Ad.II dated 14.5.2003) the President is pleased to appoint the following successful candidates of Civil Service Examination-2001 as Probationers in the Indian Customs and Central Excise Service, Group 'A' with effect

from the dates indicated against their names and until further orders :—

Sl. No.	Name of Probationer	Date of Assumption of charge
	S/Shri/Smt.	
1.	Adelli Prasad	02.09.2002(FN)
2.	Ms. B. Javabalasundari	02.09.2002(FN)
3.	Ms. Farah Iqbal	02.09.2002(FN)
4.	Kala Kant Singh	05.09.2002(FN)
5.	Ms. Manjula Hosmani	02.09.2002(FN)
6.	Nikhil Prabhakar Meshram	02.09.2002(FN)
7.	Mohan Kumar Meena	02.09.2002(FN)
8.	Navraj Goyal	02.09.2002(FN)
9.	Prabhjeet Singh Gulati	02.09.2002(FN)
10.	Shelake Nilkanth Nivrutti	02.09.2002(FN)
11.	Venkatesh T.G.	02.09.2002(FN)
12.	Vijay Kumar Singh	06.09.2002(FN)
13.	Ms. Pooja Kulkarni	26.12.2002(FN)
14.	Prashant Kumar	26.12.2002(FN)
15.	Sanjay Goel	26.12.2002(FN)
16.	Ms. Deepthi Jayaraj	26.12.2002(FN)
17.	Vikas Kumar	26.12.2002(FN)
18.	Amish Kumar Gupta	26.12.2002(FN)
19.	Ms. Ritu Sain	26.12.2002(FN)
20.	Babu A.	26.12.2002(FN)
21.	Yashovardhan Pathak	15.01.2003(FN)
22.	P. Swaroop	27.01.2003(FN)

K. KIPGEN, Under Secy.

**(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)**

New Delhi, the 10th November 2004

F. No. 2/6/2001-ADB.—Dr. Rakesh Mohan, Secretary Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India has been appointed as India's Alternate Governor on the Board of Governors of the Asian Development Bank, Manila with effect from November 1, 2004 (FN) vice Mrs. D.C. Gupta.

SHARMILA CHAVALY, Dir. (ADB)

New Delhi, the 6th November 2004

F. No. 2/15/2003-Coin.I.—The President is pleased to appoint Sh. S.K. Chattopadhyay, Engineer/Melter (Selection Grade), India Government Mint as Assistant Works Manager,

India Government Mint by promotion on regular basis in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- w.e.f. 26.10.2004 (F.N.) until further orders.

APARAJITA CHOWDHURY, Under Secy.

New Delhi, the 7th December 2004

No. A. 12011/7/2001-Admn. IA.—The President is pleased to appoint Shri H.A.C. Prasad, as Senior Economic Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 22400-525-24500 with effect from the forenoon of 2nd December 2004 and until further orders.

S. SOUNDER RAJAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
(DEPARTMENT OF COMMERCE)  
DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 15th December 2004

No. 6/1803/88/HRD-I-4303.—On attaining the age of superannuation Shri N. Chandrasekaran, Assistant Director General of Foreign Trade, in the Office of Zonal Jt. Director General of Foreign Trade, Chennai, has retired from Government Service with effect from 30.11.2004(AN).

K. CHANDRAMATHI, Jt. Dir. Gen. of Foreign Trade

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND  
PROMOTION)

New Delhi, the 8th November 2004

No. A-45011/02/2004-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Puran Chand, a Grade I officer of CSS and presently working as Under Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce & Industry, as Deputy Secretary (Selection Grade of CSS), on ad-hoc basis, in the same Department, with effect from the forenoon of 20th August, 2004.

The ad-hoc promotion of the officer to the grade of Deputy Secretary (Selection Grade of CSS) is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade. The ad-hoc promotion is further subject to the conditions laid down in Department of Personnel & Training's O.M. No. 21/13/2004-CS.I, dated 20th August, 2004.

J.J. KAUR, Under Secy.

The 25th November 2004

No. A-12022/02/2004-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Chanchal Kumar, IAS (BH:92) as Deputy Secretary in the Department of Industrial Policy and

Promotion in the Ministry of Commerce and Industry, with effect from the forenoon of 25th November, 2004, until further orders.

J.J. KAUR, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 8th December 2004

No. 22/2004 (A-19011/9/2004-Estt).—Consequent on his appointment as Secretary, Ministry of Panchayati Raj, Shri, Wajahat Habibullah, IAS (JK:68), has relinquished charge of the post of Secretary in the Ministry of Textiles with effect from the forenoon of 8th December, 2004.

R. SUBRAHMANYAM, Dir.

No. 23/2004 (A-19011/16/2004-Estt).—The President is pleased to appoint Shri R. Poornalingam, IAS (TN:70), as Secretary, Ministry of Textiles with effect from the forenoon of 8th December, 2004.

R. SUBRAHMANYAM, Dir.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS  
(DEPARTMENT OF CHEMICALS & PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 30th November 2004

No. A-19011/5/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Paresh Johri, IRS (IT:95) as Deputy Secretary in the Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals with effect from the afternoon of 29th November, 2004 for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

R.P. VASISHTHA, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND  
PUBLIC DISTRIBUTION  
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi-110 011, the 30th November 2004

No. A. 12025/1/2000-NTH (Vol. II)—The President is pleased to appoint Shri R.N. Mukherjee, Scientist SD as Director (Grade-II) NTH(NR), Ghaziabad in the National Test House (NTH) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from 27th January, 2004 (FN).

HARJINDER SINGH MALHI, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL  
RESEARCH)

New Delhi-110 016, the 3rd December 2004

No. A-19014/01/2004-Admn.—Consequent upon his transfer from Ministry of Power to Department of Scientific and Industrial Research vide DoPT's Order No. 27

dated 25th November, 2004, the President is pleased to take Shri Sanjeev Bahl an Officer of Grade-I (Under Secretary) ad-hoc of CSS on the strength of Ministry of Science and Technology, Department of Scientific and Industrial Research w.e.f. forenoon of 8th November, 2004.

GURMIT SINGH, Under Secy.

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 2nd December 2004

No. A-32012/2/2001-P.II.—The ad-hoc appointment of Shri Ram Mehar Singh Talwar, Stenographer Grade "C" of the CSSS cadre of the Ministry of Environment & Forests as Private Secretary in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- is extended with approval of the competent authority and the Department of Personnel and Training conveyed vide their OM No. 5/5/2004-CS.II dated 21.09.2004 from 01.04.2004 to 30.09.2004 or till the regular incumbents become available, whichever event takes place earlier.

2. The ad-hoc appointment will not confer any right upon the above officer for regular promotion. The Government reserves the right to cancel at any time the ad-hoc appointment and to revert the officer to the post from which he was promoted.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

#### NATIONAL RIVER CONSERVATION DIRECTORATE

New Delhi-110 003, the 2nd December 2004

No. A-12015/1/2004-NRCD.I.—The President is pleased to appoint Shri Ajay Raghava, Senior Environmental Engineer in Central Pollution Control Board as Scientist 'C' in the National River Conservation Directorate, Ministry of Environment & Forests on deputation basis in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. the forenoon of 1st December, 2004 for a period of three years or till the project continues or until further orders whichever is the earliest.

A.K. SINHA, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE (DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 1st December 2004

No. A. 38012/01/2004-Estt. I.—On attaining the age of superannuation, Shri Y.K. Talwar, Deputy Secretary (ad-hoc) in the Department of Health, Ministry of Health & Family Welfare retired from Government service with effect from the afternoon of 30th November, 2004.

DR. ANIL KUMAR, Dy. Secy.

No. A. 38012/03/2004-Estt. I.—On attaining the age of superannuation, Shri J.V.R. Prasada Rao, belonging to the Indian Administrative Service (WB:67) relinquished the charge of the post of Secretary (Health), in the Department

of Health, Ministry of Health & Family Welfare with effect from the afternoon of 30th November, 2004.

DR. ANIL KUMAR, Dy. Secy.

New Delhi, the 8th October 2004

No. A. 22012/1/2004-Estt. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/4/2004-EO(SM.I) dated the 10th September, 2004 read with Order No. 5/4/2004-EO(SM.I) dated 6.10.2004, Shri S.Y. Quraishi, IAS(HY:71), on his lateral transfer from the Ministry of Steel, has assumed charge of the post of Additional Secretary & Project Director, National AIDS Control Organisation, in the Department of Health, Ministry of Health & Family Welfare with effect from the forenoon of 13th September, 2004.

CHANDER PRAKASH, Under Secy.

The 14th October 2004

No. A. 32013/10/2004-Estt. I.—Consequent upon their promotion to Grade-I of CSS (Under Secretary) vide DOPT's O.M. No. 21/40/2004-CS. I dated the 14th September, 2004 on ad-hoc basis and transfer to this Ministry, the President is pleased to appoint Shri A.K. Deori and Shri Arvind Kumar, regular Section Officer of the cadre of Ministries of Human Resources Development and Information & Broadcasting respectively as Under Secretaries in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from the dates mentioned against each:

1. Shri A.K. Deori 20.09.2004(AN)
2. Shri Arvind Kumar 23.09.2004(FN)

The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I. Ad-hoc appointments may be terminated at any point or time without giving any reason therefore.

CHANDER PRAKASH, Under Secy.

#### MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 25th October 2004

No. 12022/4/2004-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Praveen Kumar Kakkar, presently working as Assistant Private Secretary in the personal staff of Hon'ble Minister of State for Agriculture (Shri Kanti Lal Bhuria) in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) as Officer on Special Duty (OSD) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. the forenoon of 9.10.2004.

2. The appointment of Shri Kakkar as OSD is co-terminus with and at the pleasure of MOSA.

K.D. UPRETI, Under Secy.

New Delhi-110001, the 10th November 2004

No. 4-2/2004. My (Adm.)—The Competent Authority in the Department of Agriculture & Cooperation is pleased to appoint Shri P. Purnachandra Rao, Technical Assistant, Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP) as Assistant Engineer (Testing) on promotion basis at Central Farm Machinery Training & Testing Institute, Budni (MP) in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- w.e.f. 4.10.2004 (FN).

H. C. BATRA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 16th November 2004

File No. A-19012/8/2002-EA.—The President is pleased to relieve Dr. K. Ponnukannu, a Non-Functional Selection Grade officer of Indian Economic Service, of the charge of the post of Additional Economic Adviser in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/-, with effect from the afternoon of 20th October, 2004.

RAJ KUMAR, Under Secy.

File No. A-19012/8/2002-EA.—The President is pleased to appoint Dr. K. Ponnukannu, an officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Member (Official), in the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 18,400—22,400, on deputation basis, for a period of three years, with effect from the forenoon of 21st October, 2004.

RAJ KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 09th December 2004

No. 12023/2/2003-EV.—The President is pleased to appoint Dr. Tulasa Ram, Assistant Professor-cum-Junior Scientist, Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology, Kashmir as Assistant Commissioner (Crops) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 in the Department of Agriculture & Cooperation on deputation basis for a period of three years with effect from 18.11.2004 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

K.D. UPRETI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi, the 08th December 2004

No. A-19011/15/2004-Admn.I.—The President is pleased to appoint Dr. S.K. Bandyopadhyay, Joint Director (Academic), IVRI, Izzat Nagar as Animal Husbandry

Commissioner in the Department of Animal Husbandry and Dairying in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500 plus usual allowances with effect from the forenoon of 8th December, 2004 on deputation for a period of 5 years.

P.L. MEENA, Under Secy.

New Delhi, the 10th December 2004

No. A-15011/9/2004-Admn.I.—In this Department's Notification of even number dated 5.11.2004 the date of retirement shown as "the afternoon of 5th November, 2004" of Smt. Radha Mani, Deputy Secretary (Ad-hoc) (Central Secretariat Service) may be read as "the forenoon of 5th November, 2004".

P.L. MEENA, Under Secy.

### COMMISSION FOR AGRICULTURAL COSTS AND PRICES

New Delhi, the 8th December 2004

No. 4-6/2003-Admn.—In pursuance of the directions contained in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance's letter No. 14013/1/2003-IES dated 17th September, 2004 and the approval as communicated by the Department of Agriculture and Cooperation vide their Office Order No. A 12018/4/2002-EA dated 25th November, 2004, the posts of Research Investigator Grade I (Economics) (feeder posts to the Indian Economic Service) in the Commission for Agricultural Costs and Prices (Department of Agriculture and Cooperation) have been re-designated as Economic Officer (Group 'B' Gazetted) with effect from 25th November, 2004 in the pay scale of Rs. 6500-200-10500. Consequently, the present designation of the following Research Investigators Gr. I (Economics) of the Commission for Agricultural Costs and Prices has been changed as Economic Officer (Group 'B' Gazetted) with effect from the forenoon of 25th November, 2004:—

1. Shri Ramesh Singh
2. Dr. Bhagwan Das
3. Shri P.D. Goyal
4. Shri Anand Singh Parmar
5. Smt. Uma Sharma

RAJIV MEHTA  
Member-Secretary

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 02nd December 2004

F.No. 3-8/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri K.P. Singh IAS (MP: 85) as Director in the

Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development, in the scale of pay of Rs. 15,100-400-18,300/- with effect from the forenoon of 01.12.2004, for the balance period of his Central tenure i.e. upto 25.09.2006 or until further orders, whichever is earlier, in pursuance of DOPT's order No. 4/3/2004-EO(MM.I) dated 19.11.2004.

R.S. SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF TOURISM

New Delhi-110001, the 18th November 2004

No. A-35021/3/2004-Admn.I—The President is pleased to appoint Ms. Leena Nandan, IAS (UP:87) as Director in the Ministry of Tourism in the pay scale of Rs. 15,100-400-18,300 with effect from 16.11.2004 (FN) for the period of five years or until further orders, whichever is earlier.

KULDEEP KUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi-110001, the 2nd December 2004

No. A-38012/4/2004/Estt.—Shri Sukar Singh Negi, Section Officer, in the Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, on attaining the age of superannuation, has retired from Government service w.e.f. 30.11.2004 (AN).

S.K. SHAHI, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 07th December 2004

No. RW/AP(CE)/55-E.II(Vol.IV)—The President is pleased to appoint Shri V. Velayutham, Chief Engineer, an officer of Central Engineering Service (Roads) Group 'A'

as Additional Director General in the Department of Road Transport & Highways, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/- w.e.f. 25.11.2004 (FN) for a period upto 26.01.2005 or until further orders, whichever is earlier.

2. The aforesaid appointment of Shri V. Velayutham as Additional Director General on ad-hoc basis is in pursuance of the directions of Hon'ble High Court of Delhi vide its Order dated 26.05.2004 in CM No. 4698/2004 in CWP No. 1863/2003.

A.P. PADHI, Under Secy.

#### MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

New Delhi-110003, the 22nd November 2004

No. 3/1/2003-Admn.I—The President is pleased to give in-situ promotion on a personal basis under Flexible Complementing Scheme to the following Scientists-C as Scientist-D in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 in the Ministry of Non-conventional Energy Sources with effect from the forenoon of 22nd November, 2004 until further orders:—

1. Shri G. Upadhyay and
2. Shri B.K. Panda

J. MAJUMDAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 9th December 2004

No. A-19011/6/2004-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri H.C. Gaur, CSS as Deputy Secretary in the Ministry of Labour & Employment with effect from the forenoon of 15th October, 2004 until further orders.

C.M. SHARMA, Under Secy.